

Regd. Off: 910, Chiranjiv Tower, 43-Nehru Place, New Delhi-110019 CIN No.: L72100DL1972PLC005971 Tel: 011-2644 1015-18, website: www.perfectpac.com, e-mail: complianceofficer@perfectpac.com

August 25, 2024

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001

Ref: Scrip Code 526435

Sub: <u>Submission of copies of newspaper advertisements regarding 52nd Annual General Meeting and Remote e-voting information</u>

Dear Sir/Ma'am,

In continuation of our letter dated August 24, 2024 and pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published today i.e. August 25, 2024 in "Financial Express" (English) and "Jansatta" (Hindi) regarding completion of dispatch of Notice of 52nd Annual General Meeting including e-Voting information and Annual Report for Financial Year 2023-24 through electronic mode.

The copies of newspaper advertisements are also being disseminated on the Company's website at www.perfectpac.com.

This is for your information and records.

Yours faithfully,

For Perfectpac Limited

Nidhi
Nidhi
Company Secretary

Encl:- as above

FE SUNDAY

SMFG

SMFG India Home Finance Company Ltd.

(Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.) Grihashakti - Corporate. Off.: 503 & 504, 5" Floor, G-Block, Insipre BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051, MH ■ Regd. Off. : Megh Towers, Fir. 3, Old No. 307, New No. 165, Poonamalies High Road, Maduravoyal, Chennai-600 095, Tamil Nadu SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-AUCTION SALE NOTICE OF 15 DAYS FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISION TO RULE 9(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 NOTICE is hereby given to the Public in General and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below listed immovable properties ("Secured Assets") mortgaged / charged to the Secured Creditor, the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of SMFG India Home Finance Company Ltd. (Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.) (hereinafter referred to as SMHFC) ("Secured Creditor"), will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on the date and time mentioned herein below, for recovery of the dues mentioned herein below and further interest and other expenses thereo till date of realization, due to SMHFC Secured Creditor from the Borrower(s) and Guarantor(s) mentioned herein below.

Sr. No.	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) LAN	Description of the Properties	Reserve Price (in ₹) Earnest Money Deposit (in ₹)	Date & Time of E-Auction		
		→PROPERTY NO. 1 : Built Up Second Floor, Without Roof Rights, Measuring Area 108 Sq. yds., i. e. 90.29 Sq. Mtr., Bearing Property No. 1/1759/A, Out of Khasra No. 124, Alongwith Its Whole Of The Schructure Built At Site, With All Its Fixtures and Fittings Fitted Thereon	69,70,000/-			
on.	LAN ; 605439511205800 1. Havi Kumar, 8/o Anang Pal Singh 2. Gunjan Devi	Fitted With Electricty & Water Meter Connection liwth There Separate Metersm With Common Entrance With All Common Facilities Such as Cornmon Staircase / Services Like Sewar Line & Separate Water Line, Common Gallery, Common Passage, Co., On 1/2 Parking Space On Stilt Floor With Use The Terrace Of The Top Floor Only For Installed & Maintenance of TV Antenna & Water Tank Etc. On The Roof of TE Top Floor Alongwith All Proportionate Undivided, Indivisible & Impartible Ownership Rights Land Underneath, Situated at In the area of Village. Chandrawali Alias Shahdara, Inthe Abadi of Baghichi Hardev Missar, G. T. Road, Shahdara Known As Moti Ram Road, Ram Nagar Near G.T. Road, Shahdara Delhi-110 032. PROPERTY NO. 2:Built Up Third Floor, Without Roof Rights, Measuring Area 108 Sq. yds., i. e. 90.29 Sq. Mtr., Bearing Property No. 1/1759/A, Out of Khasra No. 124, Alongwith Its Whole of the Sctructure Built At Site, With All Its Fixtures and Fittings Fitted thereon Fitted With Electricty and Water Meter Connection Iwth There Separate Metersm With Common Entrance With All Common Facilities Such As Common Staircase / Services Like Sewar Line & Separate Water Line, Common Gallery, Common Passage, Co., On 1/2 Parking Space on Stilt Floor With Use The Terrace of the top Floor Only For Installed and Maintenance of TV Antenna & Water Tank Etc. On the Roof of TE Top Floor Alongwith All Proportionate Undivided, Indivisible And Impartible Ownership Rights Land Underneath, Situated At In The Area of Village Chandrawali Alias Shahdara, Inthe Abadi of Baghichi Hardev Missar G. T. Road, Shahdara Known As Moti Ram Road, Ram Nagar Near G. T. Road, Shahdara Delhi-110 032.	6,97,000/-	10.09.2024 at 11.00 a. m. to 01.00 p. m.	at 11,00 a. m. to	

link / website address (https://disposalhub.com & https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf). The intending Bidders can also contact :: Mr. Ashish Kaushal, Name of Authorised Person, Mob. No. 8527134222, E-mail : Ashish.Kaushal@grihashakti.com and Mr. Niloy Dey on his Mob. No. 9920697801, E-mail: Niloy.Dey@grihashakti.com. Authorized Officer, SMFG INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED Place : Delhi

Date : 23.08.2024 (Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.)

APRI GLOBAL

Name of the Borrower(s) /

Guarantor(s)

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

Registered & Corporate Office: - 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 Circle Office :- 9B, 2nd Floor, Pusa Road, New Delhi – 110060

Description of Secured Asset

(Immovable Property)

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Capri Global Capital Limited (CGCL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/ Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub -section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeemthe secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CGCL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

(Loan Account No. LNCGCJGDTL0000008584 All that piece and parcel of property having 07-06-2024 22-08-2024

	(Old) 80300005444230 (New) of Jhandewalan-Pg Branch) M/s Aggarwal Trading Company (Through its Proprietor) (Borrower) M/s Garg Trading Company (Through its Proprietor),Mrs. Meena Devi,Dinesh Kumar Aggarwal (Co-Borrower)	land and building bearing DDA Built – Up Janta Flat bearing No. 70, First Floor, in Block B, Pocket 5, Sector 11, situated in the layout plan of Rohini Residential Scheme, Rohini, New Delhi-110085.	Rs.	22-00-2024
2.	(Loan Account No. LNMEMAY000086730 (Old) 80400005739090 (New) of Mayur Vihar Branch) Sabir Malik (Borrower) Mrs. Salma Begum (Co-Borrower)	All that piece and parcel of property having land and building being Freehold Residential Property Plot No. 39, admeasuring 117 Sq. Yds. i.e., 97.82 Sq. Mts., Part of Khasra No. 422, Gagan Vihar, Moza Loni (Consolidation Area), Pargana and Tehsil Loni, District Ghaziabad, Uttar Pradesh — 201102. Bounded as under: East: Plot No. 38 West: Plot No. 40 North: Plot No. 43 South: Road 20 Ft. wide.	Rs.	22-08-2024
12.7	(Loan Account No. LNMEGZB000058107 (Old) 80400005737884 (New) of Ghaziabad Branch) Sushila S (Borrower) Mrs. Santosh S (Co-Borrower)	All that piece and parcel of property viz. Freehold Residential Plot having land and building, land area measuring 200 Sq. Yds. i.e. 1/5th share in Khasra No. 987 (1-0), situated in extended Lal Dora abadi of Village Kapashera, Gali No. 1, Near Old Choupal, Tehsil Vasant Vihar, South-West Delhi, New Delhi-110037. Bounded as under: East: Remaining Part of Khasra No. 987.West: Property of Dr. Trilok Chand & other North: Rasta South: Rasta	Rs. 26,48,101/-	22-08-2024
F	Place: Delhi/NCR		Sd/- (Authori	sed Officer)

Date: 25-08-2024 For Capri Global Capital Limited (CGCL

MOHINDRA FASTENERS LIMITED

THE Fost-ening Adderined

Demand Notice Date of

Date & Amount | Possession

Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087

Website: www.mohindra.asia Email id: csnidhipathak@mohindra.asia Phone: +91-11- 46200400, 46200401 Fax: +91-11- 46200444

INFORMATION REGARDING THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Notice is hereby given that:

Place: New Delhi

Date: 25.08.2024

CIN: L74899DL1995PLC064215

 The 30th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Friday, the 20th September. 2024 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing 'VC'/ Other Audio-Visual Means 'OAVM' without the physical presence of Members of the Company at a common venue, in compliance with the General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022, issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with previous circulars issued by the MCA in this regard (collectively to be referred to as & "MCA Circulars") and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05 th January, 2023 and 25 th September, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read together with other circulars issued by SEBI in this regard (collectively to be referred to as & "SEBI Circulars"), which allow the Companies to hold their Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of members at a common venue till 30th September, 2024. Therefore, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The venue of the said meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at 304, Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi-Rohtak Road, Delhi-110087.

2. The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The process of participation in the AGM will be provided in the Notice of 30th AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Member may further note that in pursuance of above stated MCA & SEBI Circulars, the Electronic Copies of Notice of the AGM along with Annual Report for the FY 2023-24 shall be sent in due course to the members whose email addresses are registered with the Company/Depositories/Share Transfer Agent. Members of the Company holding shares either in physical form or in Dematerialized forms as on Benpose date i.e. Friday 23rd August, 2024 will receive Annual Report along with notice of 30th AGM for the financial year 2023-24 through electronic mode only. No hard copies of the Annual Report shall be made available to the Members. The Notice of the 30th AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company at http://mohindra.asia/mfl/shareholder_corner.html website of the Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.msei.in.

4. For members who are holding shares in physical form and who have not registered their email address and contact numbers with the Company/Depositories/Share Transfer Agent (RTA) and also in case you have not updated your bank account mandate for receipt of dividend, if any, directly into the bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ('Electronic Bank Mandate'), you may kindly register/update the same by following the process/instructions as provided in the notes of the Notice of 30th AGM:

For shares held in physical form: Register/Update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with RTA of the Company, Skyline Financial Services Pvt. Ltd. (D-153/A, 1 st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I New Delhi-110020) email Id compliances@skylinerta.com. Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023, the Company has sent letters to the Members holding shares in physical form to furnish the KYC details which are not registered in their respective folios. For Shares held in De-mat form: Register/Update the details in your demat account, as per the process advised by yourDepository Participant.

5. The Company shall provide remote e-voting facility (before AGM) to all its members to cast their vote on the resolutions set forth in the Notice of 30th AGM. Additionally, the Company shall also provide the e-voting facility during the AGM. The instructions to participate/join the AGM and the manner of casting the votes through Remote E-voting (before AGM) and e-voting during the AGM by the members who are holding shares in physical form or who are have not registered their email addresses with the company shall be provided in the notes of the Notice of 30th AGM. Members are requested to kindly view the same.

This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars.

By order of the Board For Mohindra Fasteners Limited

> (Mamta Sharma) Company Secretary & Compliance Officer

SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

Folio No. 0000240 of Sharat Rasayan Limited having its Registered Office at 1501 Vikram Tower, Rajendra Place, New Dethi 11:0008 registered in the name of Mr. Mukesh Kapoor Son Sh. Ram Lal Kapoor have been lost. have now applied to the Company for issue of duplicate

share certificate in fieu of the above. Any person having any objection to the issue of duplicate Share certificates fieu of said original share certificates, is requested to lodge his/her objection thereto with the Company at the ove address or with their Registrars, Link Intime Indi Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi 10058, in writing, within 15 days from the date of

NOTICE is hereby given that Share Certificate No. 377

pertaining to 100 equity shares bearing Distinctive No. 1364041 TO 1364140 (both inclusive) comprised in

blication of this Notice.

NAME & ADDRESS OF THE SHAREHOLDER Mukesh Kapoor S/O Ram Lal Kapoor, Sanjeevni Bihar Colony V. P. O. Dinangar, Near Vishkarma Mandir, Dinanagr, Gurdaspur, Punjab 143531 s: Dinanagar DATE: 25-08-2024

SMFG

AMMENDMENT

No.: SECR/HQ/Engg./TC/Tender Notice/Safety Fencing, Date: 21.08.2024. Ref: Tender Notice No. ENGG-CTE-BSP-06-24-25, Date of Opening:

Published in www.ireps.gov.in Now Read As in Custom Condition SI No. 5 Entire work will be executed in Entire work will be executed in Bilaspur-Bhatapara section. Bilaspur- Durg section.

Ammendmend is available over websites: https://www.ireps.gov.in CPR/10/204 Dy. CEITrack Planning HQ/Bilaspur. f South East Central Railway X@secrail

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED APRIGLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED Registered & Corporate Office: 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013

Circle Office: - Capri Global Housing Finance Limited 9B, 2nd Floor, Pusa Road, New Delhi – 110060 APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Capri Global Housing Finance Limited (CGHFL under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub –section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeemthe secured assets.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CGHFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. **Description of Secured Asset** Date of Name of the Borrower(s) / Demand Notice Guarantor(s) (Immovable Property) Date & Amount Possession (Loan Account No. 10-06-2024 23-08-2024 All Piece and Parcel of property having LNHLAGR000066763 (Old) land and building being MMIG House 50300000628502 (New) No. 155, bearing Municipal Corporation 25,10,163/-

No. 18B/155, Area Admeasuring 130 of our Agra Branch) Sq. Mts., Situated in Shamshabad Road Housing Scheme, Shaheed Mohammad Aslam Qureshi (Borrower) Nagar, Tajgang Ward, Tehsil Sadar, District Agra, Uttar Pradesh Mrs. Sanover Bano (Co-Borrower) 282008 Bounded as follows: North: MMIG Flat No. 157 South: MMIG Flat No. 153 East: MMIG Building West: Path And Exit 25 Feet Wide

Place: Agra Sd/- (Authorised Officer) Date: 25-08-2024 For Capri Global Housing Finance Limited (CGHFL)

SMFG India Home Finance Company Ltd.

(Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.) Grihashakti Corporate. Off.: 503 & 504, 5" Floor, G-Block, Inspire BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051, MH Regd. Off. : Megh Towers, Fir. 3, Old No. 307, New No. 165, Poonamaliee High Road, Maduravoyal, Chennai-600 095, Tamil Nadu.

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-AUCTION SALE NOTICE OF 30 DAYS FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISION TO RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002. NOTICE is hereby given to the Public in General and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below listed immovable properties ("Secured Assets") mortgaged / charged to the Secured Creditor, the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of SMFG India Home Finance Company Ltd. (Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.) (hereinafter referred to as SMHFC) ("Secured Creditor"), will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on the date and time mentioned herein below, for recovery of the dues mentioned herein below and further interest and other expenses thereo till date of

realization, due to SMHFC Secured Creditor from the Borrower(s) and Guarantor(s) mentioned herein below

Sr. No.	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) LAN	Description of the Properties	Reserve Price (In ₹)	Date & Time of E-Auction	Date of EMD Submission
			Earnest Money Deposit (In ₹)		
OI.	LAN: 609139211353329 1. Sonia Beer Singh	All That Piece & Parcel of Proerty Second Floor, Without Roof / Terrace Rights, Area Measuring 58.5 Sq. Yds., i. e. 489115 Sq. Mtrs., Out of Property Bearing No. WZ-94/1, Alongwith Proportionate Undivided Indivisible & Impartial Owneship Rights of The Underneath Land Measuring 58.5 Sq. Yds., i. e. 489115 Sq. Mtrs. With One Small Correction On Stiff Floor, Out of Measuring 1985.	21,80,000/-		at
	2. Devinder Kumar	Mtrs. With One Small Carparking On Stift Floor, Out of Khasra No. 65/2/1, Situated In The Area of Village Palam Colony, Known As Sadh Nagar Palam Colony, Delhi-110 045	2,18,000/-	01.00 p. m.	01.00 p. m.
02.	LAN: 613739211287729 1. Surender Kumar	All Piece & Parcel of Property of Bearing Back Side Portion of First Floor Without Roof / Terrace Rights of Free Hold Built Up Bearing Property No. 53-A Admeasuring 45 Sq. Yds., Le. 37.82 Bq. Trs., Out of Khasra No. 543 Situated in The Revenu Estate of Village:	16,50,000/-	24.09.2024 at 11.00 a. m.	23.09.2024 at 11,00 a. m.
	2. Shobha Kumari	Bindapur, Delhi State, Delhi Area, Abadi Know As Colony Kesho Ram Park Uttam Nagar, New Delhi-110 059.		to 01,00 p. m.	to 01.00 p. m.
.20	LAN: 605439211218557 1. Ritu Gupta 2. Laxman	Property Bearing No 63 Area Mueasuing 95 Sq.yds., Out Of Khasra No 60/13, Situated in The Revenue Estate Of Village Hastsal Delhi Colony Know As Block R-2 Mohan Garden Uttam Nagar New Delhi-110059 Bounded As Under :- East :- Portion Of Plot No. 63:	23,10,000/-	24.09.2024 at 11.00 a. m. to	23.09.2024 at 11.00 a. m.
		ta West : Gali 10 Ft.; North : Plot No. 64; South : Road 20 Ft.		01.00 p. m.	01.00 p. m.

link / website address (https://disposalhub.com & https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf). The Intending Bidders can also contact :: Mr. Ashish Kaushal, Name of Authorised Person, Mob. No. 8527134222, E-mail : Ashish Kaushal@grihashakti.com and Mr. Niloy Dey on his Mob. No. 9920697801, E-mail : Niloy.Dey@grihashakti.com.

Place: Delhi Date: 23.08.2024 / 25.06.2024

इंडियन बेंक

🛕 इलाहाबाद

Authorized Officer, SMFG INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED (Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.)

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK SECOND FLOOR, GMTT BUILDING D-7 SECTOR 3 NOIDA UP 201301 POSSESSION NOTICE (for Immovable property) [Rule 8(1)]

Whereas, The undersigned, being the Authorised Officer of Ujjivan Small Finance Bank Ltd., under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice to borrower/ Guarantor on the dates mentioned hereunder; calling upon the Borrower(s) / Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the respective demand notice within 60 days of the date of the notice. The Borrower/Co-Borrower/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Mortgagor, Co- Borrower/Mortgagor, Co-Borrower and the public in general that the undersigned has taken SYMBOLIC POSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002, on the dates mentioned against each account.

The Borrower/Mortgagor's, Co-borrower/Mortgagor's and Co-borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

The Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor and Co-Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Ujjivan Small Finance Bank Ltd. for an amount of for the amount(s), mentioned herein below besides interest and other charges / expenses against each account.

Name of address of Borrower/	Description of the		Amount as per
Co-Borrower/Mortgagor	Immovable property		demand notice
 Awadhraj Kumar Modanwal @ Awadhraj S/o Bechu, Benduar, Ahirouli, District- Kushinagar, Uttar Pradesh, Pin Code- 274149 Rita Devi W/o Awadhraj, Benduar, Ahirouli, District- Kushinagar, Uttar Pradesh, Pin 	All that Part & Parcel of property admeasuring 517.6 sq. feet situated at in aaraji no. 491(1) Residential property admeasuring 256 Sq. Feet Vinduaar, Tappa Vinduaar Pargana – Haveli, Tehsil bounded as follows: Boundaries: East: House of House of Awadhraj South: Road (2) Residential prisituated in aaraji no. 491, Mauja – Vinduaar, Tappa Hata, District -Kushinagar which is bounded as fo	Date of Demand Notice: 02.03.2024 Date of possession: 22.08.2024 situated in aaraji no. 491, Mauja – I- Hata, District-Kushinagar which is Pramod Shukla West: Road North: operty admeasuring 261.6 Sq. Feet Vinduaar Pargana – Haveli, Tehsil-	Rs. 21,65,122/- as on 25-02-2024

Reeta Devi The Property belongs to Rita Devi w/o Awadhraj i.e. no. 2 between you 1. Pravin Kumar S/o Yadram @ Yadaram @ Yad Ram Singh H. No. 47, All that Part Date of Demand Notice: 21.05.2024 Rs. Ward No. 5, Niranjanpuri Gaushala, Aligarh, U.P.-202001 Also At.-H. No. | & Parcel of | Date of possession: 22.08.2024 | 6.56.791/-58, Gali No. 2, Near Niranjanpuri Gaushala, Koil, Aligarh, U.P.-202001 2. Residential House bearing Nagar Nigam No. as on Yadram @ Yadaram @ Yad Ram Singh Sto Khem Chandra @ Khem | 05/47, admeasuring area 41.80 Sq. Mtr. at | 15-05-2024 Chandr H. No. 47, Ward No. 5, Niranjanpuri Gaushala, Aligarh, U.P.- Mohalla Niranjanpuri near Gaushala Tehsil 202001 Also At:-H. No. 58, Gali No. 2, Near Niranjanpuri Gaushala, Koil, Koil, Aligarh, U.P. which is bounded as follows: Aligarh, U.P.-202001 3. Jaywanti W/o Yadram @ Yadaram @ Yad Ram | Boundaries: East: House of Hardevi West. House of Varisan Cheda Lal North: House of Singh H. No. 47, Ward No. 5, Niranjanpuri Gaushala, Aligarh, U.P.-202001 Netrapal South: Rasta The Property belongs Also At:-H. No. 58, Gali No. 2, Near Niranjanpuri Gaushala, Koil, Aligarh, to Yadram Singh S/o Khem Chandra i.e. no. 2 U.P.-202001 4.Mamta Devi W/o Pravin Kumar H. No. 47, Ward No. 5, Niranjanpuri Gaushala, Aligarh, U.P.-202001 Also At.- H. No. 58, Gali No. among you 2, Near Niranjanpuri Gaushala, Koil, Aligarh, U.P.-202001 in Loan Account No 2269210080000120 & 2269218860000029 Date: 25.08.2024 Place: Uttar Pradesh Authorised Officer

Indian Bank

ALLAHABAD

Can Fin Homes Ltd (Sponsor Camara Bank)

CAN FIN HOMES LTD.

1ST FLOOR, SCO 2, SECTOR 9, HUDA MARKET KARNAL-HARYANA-132001, TEL.: 0184-2231555, 7625079210 E-mail: karnal@canfinhomes.com, CIN:L85110KA1987PLC008699

[Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property)

The undersigned being the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security nterest Act 2002 and in exercise of the powers under the said Act and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated **05.06.2024** calling upon the borrowers Mr. Santosh Kumar s/o Mr. Baleshwar Singh and Mrs. Simpi Kumari w/o Mr. Santosh Kumar, Mr. Baleshwar S/o Mr. Ram Murti and (Guarantor) Mr. Vindhyachal s/o Mr. Baleshwer Singh to repay the amount mentioned in the notice being Rs.8,78,625/- (Rupees Eight Lakh Seventy Eight Thousand Six Hundred Twenty Five Only) with further interest at contractual rates, till date of realization within 60 days from the date of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and

the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 (of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) on this the 22nd day of August The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act,

in respect of time available, to redeem the secured assets.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Can Fin Homes Ltd for an amount of Rs.8,78,625/- (Rupees Eight Lakh Seventy Eight Thousand Six Hundred Twenty Five Only) and interest thereon. **Description of immovable property**

Property measuring 110 sq Yards comprised in Khasra No. 60//17/1 Situated in Patti Mukhdumjadgan inside Nagar Palika, Tehsil & District Panipat, Haryana-132103 Boundaries of the Property:

East: Other's property West: Road North: Other's property South: Other's property

Date: 24.08.2024 **Authorised Officer Can Fin Homes Ltd** Place : Karnal

perfectpac limited

Regd. Off.: 910, Chiranjiv Tower-43, Nehru Place, New Delhi-110019 E-mail id: complianceofficer@perfectpac.com, Website: www.perfectpac.com CIN: L72100DL1972PLC005971, Phone No.: 011-26441015-18

made thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and

NOTICE OF THE 52ND ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION In compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, read with subsequent circulars issued from time to time, the latest one being General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 ('MCA Circulars' &SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued from time to time, the latest one being SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 ('SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as 'Circulars'), NOTICE is hereby given that the Fifty-Second (52nd) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Perfectpac Limited ('Company') will be held on Wednesday, September 18, 2024 at 02:00 p.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the business(es) as set out in he Notice convening the 52nd AGM ('AGM Notice'). Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. ear 2023-24 ('Annual Report') has been sent only through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent 'RTA')/Depository Participant ('DP'). The emailing of AGM Notice to all members has

In compliance with the Circulars, AGM Notice along with the Annual Report for financial been completed on August 24, 2024. The aforesaid documents are also available on the Company's website at https://perfectpac.com/annualreports.aspx, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. Manner of registering / updating email address, mobile number and bank account

Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Members who have not registered their email ids, are requested to register the same for

receiving all communications including Annual Report, Notices etc. from the Company electronically as per process mentioned below:-• Members holding equity shares of the Company in physical form may register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant Forms with Company's RTA, Skyline Financial Services Private Limited at parveen@skylinerta.com.

Members may download the prescribed Forms from the Company's website at https://perfectpac.com/updationofkyc.aspx. • Members holding equity shares of the Company in demat form are requested to

approach their respective DP and follow the process advised by DP.

Instructions for remote E-voting and E-voting during AGM In compliance with provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), as amended, read with MCA Circulars, the Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-Voting facility (prior AGM) and e-Voting facility (at the AGM), on all the resolutions set forth in AGM Notice. The facility of casting votes will be provided by NSDL. Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-Voting. The Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM. All the Members are informed that:

The business as set forth in the AGM Notice will be transacted through voting by electronic means in the form of e-Voting.

. The voting rights of Member(s) shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday September 11, 2024. Any person who is a member of the Company as on cut-off date is eligible to cast vote electronically through remote e-Voting or e-Voting at the AGM on all the resolutions set forth in the AGM Notice.

Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the Company sends the AGM Notice and holding shares as on cut-off date i.e. Wednesday, September 11, 2024, may obtain the User ID and password by sending an email to evoting@nsdl.com or admin@skylinerta.com by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID for casting their vote. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voting then existing user ID and password can be

The remote e-Voting period commences at 09:00 A.M. (IST) on Sunday, September 15, 2024 and ends at 05:00 P.M. (IST) on Tuesday, September 17, 2024 The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change

During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form may cast their vote by remote e-Voting before the AGM.

. The Members will be provided with the facility for e-Voting at the AGM and those Members participating at the AGM & who have not already cast their vote by remote e-Voting before the AGM, will be eligible to vote at the AGM. The Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the

AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is provided in the AGM Notice and also available on the Company's website at https://perfectpac.com/annualreports.aspx and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring User id and password for e-Voting by providing documents as mentioned in the AGM Notice. 10.In case of any queries related to e-voting, please refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 48867000 and

022 - 24997000 or send a request at evoting@nsdl.com who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. 1. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Ravi Sharma (FCS No. 4468, C.P. No.: 3666), and/or Ms. Suman Pandey (FCS No. 7606, C.P. No.: 8404) Partners of M/s. RSM & Co., Company Secretaries, has been appointed as scrutinizer

to scrutinize the process for remote e-Voting and e-Voting at the AGM in a fair and 12. The Results shall be declared within stipulated time under applicable laws and the same, along with the consolidated Scrutinizer's Report, shall be placed on the website

of the Company at www.perfectpac.com, NSDL at www.evoting.nsdl.com and shall be communicated to BSE Limited at www.bseindia.com. For Perfectpac Limited

Place: New Delhi Nidhi Date: 24.08.2024 Company Secretary

Branch: Sadhna Complex, Ramnagar Possession Notice

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Indian Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice/s on the dates mentioned against each account calling upon the respective Borrowers/Guarantors/Mortgagors to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice(s). The Borrowers/Guarantors/Mortgagors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/Guarantors/Mortgagors and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the dates mentioned against each property. The Borrowers/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of Indian Bankfor the amounts and interest thereon. The Borrowers/Guarantors/Mortgagors attention is invited to provisions of subsection (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Road, Kashipur, Distt. U.S. Nagar (Uttarakhand)

	No.	Name of Branch/Borrower/Guarantor	Details of Mortgaged Property	Demand Notice
	1.	Borrower/ Mortgagor- Sh. Dharamveer S/o Sh. Nanhe	Property.1- Residential House situated at Khata No 66, Khasra	05.06.2024
		Singh, Address: House at Khasra No 43 Min, Near Parker Public School Dhakia Gulaho Kashinur Distt-Udham	No 43 min Dhakiya Gulabo Near Parker Public School Kashipur Pin 244713, Dist US Nagar, Uttarakhand, having area 1	.44.98 Sqr M
		Singh Nagar(Uttarakhand)-244713, Guarantor- Sh.	Shri Dharamveer S/o Nanhe. Sale Deed registered at Bahi No 1,	Zild No 2743
- 1		Mukesh Kumar S/o Sh. Har Prasad, Address: Nai Sabji	110, Serial No 12758 dated 03.12.20211 at S.R.O Kashipur.Bour	ndaries:East
- 1		Mandi, Katra Maliyan, KashipurDisttUdham Singh	Suman Devi West- Property of Vinay Kumar North- 20' Road	South-Prope
- 1		Nagar(Uttarakhand)-244713, Guarantor -Mr. Farukh	Kumar	
- 1		Hussain S/o Mr. Sabir Hussain, Address: Ward No 4, Ada	rsh Mishri Nagar, KashipurDisttUdham Singh Nagar(Uttarakhan	d)-244713.

Property. 1- Residential House situated at Khata No 66, Khasra No 43 min Dhakiya Gulabo Near Parker Public School Kashipur Pin 244713, Dist US Nagar, Uttarakhand, having area 144.98 Sgr Mtr owned by Shri Dharamveer S/o Nanhe. Sale Deed registered at Bahi No 1, Zild No 2743 Pages 87 to 110, Serial No 12758 dated 03.12.20211 at S.R.O Kashipur. Boundaries: East-Property of Suman Devi West- Property of Vinay Kumar North- 20' RoadSouth-Property of Barit Kumar

Authorised Officer, Indian Bank

financialexp.epapr.in

Dated: 21-08-2024





Place: Kashipur

New Delhi

Details of Mortgaged Property

Notice 05.06.2024 21.08.2024

Date Of

Possession

Date of

as on 05.06.2024 + Interest and Other Charges

(For Immovable Property)

Amount Outstanding

As Per

Demand Notice

Rs.16,83,643 /-



आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः इंडियन देवीन कंपाउंड, वेशवल, गुजरात 362266 शाखा कार्यालयः तीसरी मंजिल, जीएस-ट्रेंड सेंटर, 534-536, नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर-302021

> कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) [सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत]

जबकि जबोहरताहारी, वितीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 64) के अंतर्गत आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रक्रिभति हित (प्रवर्तन) निवम, 2002 के निवम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05.01.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ताओं अर्थात श्री राजेश शाह, श्री मोहित शाह, श्री मुदित शाह, श्रीमती नमता शाह, श्री मुरली मनोहर शाह और नेसर्स एमआर. एंटरप्राइजेज को नोटिस में उठिलखित राशि रु. 1,39,48,418 / -(एक करोड उनमातीस आख अडतालीस हजार चार सी अठारह भात्र) उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया। तवारकतांओं द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, तथारकतांओं और आम जनता को सचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने चक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ परित, इस 23 अगरत 2024 की नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

विशेष कप से उपारवर्ताओं और आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई मी लेन-देन न करने की चैतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लंग-देन आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेंड द्वारा स 1,39,48,418 /- (एक करोड उनवालीस लाख अडतालीस हजार चार सी अठारह मात्र) की राशि और उस पर ब्याज के भार के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

योजना एल.एस. नगर, नया खेंडा अंवायादी, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान-302039 में प्लॉट नंबर वी-128 (जिसे बी-126 और बी-126ए के नाम से मी जाना जाता है) का पुरा हिस्सा।

स्थान : जयपुर दिनांक : 23.08.2024 अधिकृत अधिकारी (आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड)

पैटबैक बिजनेस लिभिटेड

सीआईएनः L74999DL1984PLC018747 पंजी. कार्यालय : शॉप नं. 325, प्लॉट नं. 3, अग्रवाल प्लाजा, डीडीए कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085

ईमेलः crazypricingdel@gmail.com, वेबसाइटः www.patback.in 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स पैटबैक बिजनेस लिमिटेड के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 को सुबह 11:00 बजे,स्थानः 325, प्लॉट नं. 3, अग्रवाल प्लाजा, डीडीए कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर—14, रोहिणी, नई दिल्ली—110085 ("बैठक") में आयोजित की जाएगी।

बैठक बुलाने की सूचना सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर कूरियर द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजी गई है, जिन्होंने कट—ऑफ तारीख यानी 16 अगस्त, 2024 तक डिपॉजिटरी / कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत किया है और सूचना प्रेषित की प्रक्रिया दिनांक 23 अगस्त, 2024 को भौतिक रूप से पूरी की गई। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.patback.in) पर उपलब्ध है।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई–वोटिंग") द्वारा बैठक में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित संचार, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यूजर आईडी और पासवर्ड शामिल है, एवं बैठक बुलाने की सूचना की एक प्रति के साथ सदस्यों को भेज दी गई है। ई-वोटिंग के लिए संचार का प्रारूप कंपनी की वेबसाइटः www.patback.in और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

रिमोट ई—वोटिंग सुविधा मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और गुरुवार 19 सितम्बर, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एक व्यक्ति, जिसका नाम कट—ऑफ तिथि (रिकॉर्ड तिथि), यानी शुक्रवार, 13 अगस्त, 2024 को सदस्यों / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देता है, केवल वही बैठक में रिमोट ई-वोटिंग / वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर धारण करता है, वह अन्य बातों के साथ-साथ evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी प्रदान की गई है जो कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वह रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने मौजुदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, वे भी बैठक में शामिल हो सकते हैं. लेकिन दोबारा वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

इंमेल पते का पंजीकरणः जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते पंजीकृत करा लें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ('आरटीए') के साथ

बही बंदी : इसके अलावा नोटिस दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टार और शेयर टांसफर बही, 40वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए 14.09.2024 से 20.09.2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

पैटबैक बिजनेस लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेशानुसार पवन कुमार मित्तल निदेशक

डीआईएन : 00749265

दिनांकः 23.08.2024 स्थानः नई दिल्ली

PRO CLB GLOBAL LIMITED (FORMERLY PROVESTMENT SERVICES LIMITED)

CIN: L74899DL1994PLC058964 Regd. Office: 5/34, Third Floor, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi 110005 | Email : deepika.proclbglobal@gmail.com Ph: +91 9582325860 | Website: www.proclbglobal.com

Information Regarding 30th Annual General Meeting of PRO CLB GLOBALLIMITED

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 16, 2024 at 10:00 A.M.(IST) at B-4/148C Safdarjung Enclave, New Delhi-110029,to transact the business (es) as set out in the Notice of the AGM which is being sent to the members by E-mail.

2. 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 16, 2024 at 10:00A.M. IST

3. The Said Notice along with Annual Report for the Financial Yearwill be sent only by the electronic mode to all the Members at their registered email-ids and the same is also available on the website of the Company at www.proclbglobal.com .The Notice of AGM is also available on the website CDSL at www.evotingindia.com

Shareholders will have an opportunity to cast their vote on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting System. The Log in credentials for casting the votes through remote e-voting shall be made available to the shareholders through e-mail. The detailed procedure for casting the votes through remote e-voting and voting system shall be provided in the Notice of the

5. Members who have not registered their email addresses, so far, are also requested to register their email address in respect of electronic holdings with depository through their concerned Depository Participants. Members who hold their shares in physical form are requested to get their email id registered, by providing necessary details like Folio No., Name of the Member, Mobile No. And Email Id with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd (Registrar & Transfer Agent of the Company) or sent details on deepika.proclbglobal@gmail.com.

NOTICE FOR 30th(ANNUAL GENERAL MEETING) AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting(AGM) of the Companywill be held on Monday, September 16, 2024 at 10:00 A.M.at B-4/148C Safdarjung Enclave, New Delhi-110029to transact the business (es) as set out in the Notice dated August 22, 2024. The said Notice along with Annual Report has been sent to all the Members at their registered email-ids by August 24, 2024 and the same is also available on the website of the Company atwww.procloglobal.com. The Notice of AGM is also available on the website CDSL at www.evotingindia.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 10, 2024 to Sunday, September 15, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company for the year ended March 31, 2024.

As permitted under Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the Annual Report for the year 2024 have been sent electronically on August 24, 2024 to those members who have registered their e-mail id addresses with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd (Registrar & Transfer Agent of the Company).

Members who have not registered their email addresses, so far, are also requested to register their email address in respect of electronic holdings with depository through their concerned Depository Participants. Members who hold their shares in physical form are requested to get their email id registered, by providing necessary details like Folio No., Name of the Member, Mobile No. And Email Id with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd(beetalrta@gmail.com) or sent details on deepika.proclbglobal@gmail.com

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014;

- a) The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the Resolutions set out in the Notice of the 30th AGM dated
- b) Commencement of remote e-voting: Friday, September 13,2024 10:00 Hrs (IST). c) End of remote e-voting: Sunday, September 15, 2024 17:00 Hrs (IST)
- d) Record Date/Cut-off date: September 09, 2024.

Date: 24.08.2024

Place: New Delhi

e) Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 17:00 Hrs (IST) on Sunday, September 15, 2024.

The result of the Remote E-voting /voting shall be declared on or before September 18, 2024. The Result declared, along with Scrutinizer Report will be available at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and communication to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

> By order of the Board For PRO CLB GLOBAL LIMITED (Formerly Provestment Services Limited)

Deepika Rajput (Company Secretary & Compliance Officer)

रिच यनिवर्स नेटवर्क लिमिटेड

CIN: L51100UP1990PLC012089, (पूर्व की रिच कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) पंजीकृत कार्योलय: 7/125, सी-2, द्वितीय तल, स्वरूप नगर, कानपुर - 208002, टेली फैक्स: 0512-2540293, ई-मेल: rcfsl@rediffmail.com, वेबसाइटः www.richuninet.com

34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी और बुक क्लोजर

दिद्वारा सचित किया जाता है किः कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, सितंबर 2024 को शाम 4:15 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल 7/125, सी-2, स्वरूप नगर, कानपुर - 208002 में उक्त एजीएम की बैठक की सुचना दिनांक 08 अगस्त, 2024 में उल्लिख कारोबार करने के लिए आयोजित की जाएगी। संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए एजीएम की सुचन और वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन), बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ, कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं जिनका ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत है उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी

गथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानं और सेबी (सुचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्ट और शेयर हस्तांतरण रजिस्टर एजीएम के उद्देश्य से 11 सितंबर, 2024 से 18 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे। यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 वे प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यो को नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से नोटिस में उल्लिखित सभी व्यवसाय करने के लिए इलेक्ट्रॉनिव सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) सहर्ष प्रदान कर रही है। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि:-

(क) रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में मतदान के माध्यम से सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कटऑफ तिथि 11 सितंबर, 2024 है .ख.) रिमोट ई-चोटिंग 15 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे भा.मा.स. से शुरू होगी और 17 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 ब भा.मा.स. पर समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[ग) कोई व्यक्ति, जिसने ईमेल भेजने की तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 के बाद शेयर खरीदे हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है औ कटऑफ तिथि यानी 11 सितंबर, 2024 तक शेयर धारण कर रहा है, www.evoting.nsdl.com पर अनरोध भेजकर लॉगि करने की प्रक्रिया प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही ठरउन्छ के साथ पंजीकृत है, तो वह ई वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा लॉगिन आईडी/यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। व) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है

कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार की वेबसाइट www.skylinerta.com पर जाएं, ईमेल पंजीकरण पर क्लिक करें और उसमें आवश्यव ङ) डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत⁄ अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते

च) एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.richuninet.com और एनएसडीएल वेबसाइट www.evoting.nsdl.co

(छ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया 34वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना में तथा सदस्यों को भेजे गए ईमेल में तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में. सदस evoting@nsdl.co.in तथा/या rcfsl@rediffmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

(ज) सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सुचना में दिए गए सभी नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा विशेष रूप से एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

> बोर्ड के आदेशानुसार, रिच युनिवर्स नेटवर्क लिमिटेड हस्ता./ शाश्वत अग्रवाल

> > प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 0012279

सकते हैं।

तिथि : 23.08.2024

पर उपलब्ध है

कान्टीनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट र्न. 301, मेट्रो फ्लाजा, परिवहन मार्ग, जयप्र-302001 (राजस्थान), इं: पेल: continentalsecuritieslimited@gmail.com, कंक्साइंट : www.continentalsecuritiesltd.com with: 0141-2943037, CIN: L67120RJ1990PLC005371

34वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), ई-वोटिंग संबंधी सृचना एवं लेखा बही बंदीकरण के संबंध में सूचना

इसके द्वारा सृचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों और संबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ख्येबी ् एलओडीआर)विनियम, के प्रावधानों के अनुपालन में कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 18 सितंबर, 2024 को दोपहर 02:00 बजे IST वीडियों कॉन्फ्रॉसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्ञाल साधनों (ओएबीएम) की सुविधा के माध्यम से एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी, जैसा कि 24.08.2024 को आयोजित उनकी बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल द्वारा तय किए गए 34वें एजीएम के नोटिस में निर्धारित

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 34वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सुचना ई-बोटिंग विवरण सहित वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से 34वीं एजीएम में ग्रामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के साथ उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर जट या उनके संबोधत डिपाजिटरा प्रतिभागिया (डापा) के साथ एमसाए संकलर और संबा संकलर व अनुसार पंजीकृत है उन्हें ई-मेल के माध्यम से शनिवार, 24 अगस्त, 2024 को भेज दी गई है। यह सुचना कम्पनी की वेबसाइट www.continentalsecuritiesItd.com स्टॉक एक्सबेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी मर्विमेज लिमिटेड (सीडीएमएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है ।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की घारा 108 के प्रावधानों, सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 और एमसीए परिपन्नों के अनुपालन में सदस्यों को रिमोट ई-बोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-बोटिंग (एजीएम के दौरान) सेवाओं के माध्यम से सीडीएसएल द्वारा 33वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है ।

17 सितंबर 2024 (सार्य 5:00 बजं आईएसटी) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्टॉनिक रूप से अपना बोट डाल सकते हैं। इसके बाद, सीडीएसएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉडबल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अधना बोट डाला है, वे भी वीसी/ओएबीएम सविधा

रियोट ई-बोटिंग रविवार, 15 सितंबर 2024 (प्रात: 10 बजे आईएसटी) से प्रारम्भ होगी और मंगलवार,

के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई- वोटिंग सुविधा के माध्यम से दोबारा बोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर बोट दे देता है. तो उसे बाद में इसे बदलने की अनमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ईं-बोटिंग, एजीएम में शामिल होने और एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश दिनांक 24.08.2024 की 34वीं एजीएम के सचना में दिए गए हैं

श्री अजय खंडेलवाल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जयपर को संपर्ण ई-बोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए कंपनी द्वारा के स्कृटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है । सदस्यों को बोटिंग अधिकार बधवार, 11 सितंबर, 2024 (कट-ऑफ तिथि) को कंपनी के पेड-अप इक्किटी शेवर पंजी के अपने शंयरों के अनुपात में होंगे ।एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टार में या कट-ऑफ तिथि के अनसार डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है वे ही केवल एजीएम में शामिल होने के लिए अधिकत होंगे, रिमोट ई-बोटिंग तथा एजीएम के दीरान ई-बोटिंग की सर्विधा उपलब्ध होगी। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है। इस नोटिस को केवल सचना जानकारी के उद्देश्य से समझे।

कते कान्टीनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

स्थान : जयप्र दिनांक : 24.08.2024

प्रविता खण्डेलवाल (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) सदस्यंता संख्याः 53836



SEASONS

SEASONS TEXTILES LIMITED CIN -L18101DL1986PLC024058 Regd. Off: 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi -110 024

Phone: 0120-4690000, Fax: 0120-4351485. Website: www.seasonsworld.com, E mail: cs.stl@seasonsworld.com NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 38" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Seasons Textiles Limited will be held on Friday, 27th September 2024, at 11:30 AM, through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OVAM") facility, to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company, at 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi - 110 024,

Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules framed thereunde and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8" April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12" May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India, the 38th AGM of the Company is being held on Friday, 27^e September 2024, at 11:30 AM, thorough VC/OAVM, without the physical presence of the

Further, electronic copies of the Annual Report of the Company, for the financial year 2023 2024 which comprises of Notice for calling the 38" AGM, Directors' Report, Audited Standalone Financial Statements, and Auditors Reports thereon, have been sent Saturday 24 August, 2024, to all the Members whose Email IDs are registered with the Company/Depository Participants/ Skyline Financial Services Private Limited ("Registrar & Transfer Agent"). It is also available on the Company's website, www.seasonsworld.com website of Central Depository Services Limited (CDSL), www.evotingindia.com and website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-of Date, i.e., Friday 20th September 2024, may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of CDSL ("Remote e Voting"). All the Members are hereby informed that:

- The business, as set out in the Notice of the AGM, may be transacted through Remote e. Voting or e-Voting system at the AGM; The Remote e-Voting shall commence on Tuesday, September 24, 2024 at 10:00 A.M.
- (IST) and ends on Thursday, September 26, 2024 at 05:00 P.M. (IST).;
- The Cut-off Date for determining the eligibility to vote by Remote e-Voting or e-Voting system at the AGM shall be Friday 20" September 2024;
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the company after circulation of the Notice of AGM and holding shares as on Cut-off Date, i.e., Friday 20th September 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911 However, if a person is already registered with CDSL for e-Voting then the existing user ID and password can be used for casting the vote;
- Members may note that: a) The Remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 PM on 26 September 2024. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting electronically will be made available during the AGM;
- c) the Members who have cast their vote by Remote e-Voting prior to the AGM, may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again; and
- d) a person those names is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of Remote e-Voting or e-Voting at the AGM.
- The detailed procedure and instructions for Remote e-Voting and e-Voting during the AGM are given in the Notice of the AGM.
- If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSI e-Voting System, you can write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or contact
- All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing; 25" Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@odslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911 or write to the Company at cs.stt@seasonsworld.com.

The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the Meeting. The results declared along with Scrutinizers Report will be placed on the website of the Company at www.seasonsworld.com immediately after the results are declared and will simultaneously be forwarded to BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed and shall be displayed at the Registered Office as well at the Corporate Office of the Company.

NOTICE OF BOOK CLOSURE:

Date: 24/08/2024

Place: Noida

Notice hereby given under Section 91 of Companies Act, 2013 and Rule Made thereunder the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2024, to Friday, September 27, 2024 (both days inclusive).

> By order of the Board For Seasons Textiles Limited SAURABH ARORA Company Secretary and Compliance Officer

🔃 परफेक्टपैक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ९१०, चिरंजीव टॉवर-४३, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 ई-मेल आईडी: complianceofficer@perfectpac.com, वेबसाइट: www.perfectpac.com सीआईएनः L72100DL1972PLC005971, फोन नंबरः 011–26441015–18

52वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के साथ पढ़ें, समय–समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्रों के साथ पढ़ें, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 ('एमसीए परिपत्र') और सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई. 2020 और समय—समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्र हैं, नवीनतम सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडीपीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 07 अक्टूबर 2023 ('सेबी परिपत्र') (एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्रों को सामृहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित किया जाता है), इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि परफेक्टपैक लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की पचासवीं (52वीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 18 सितंबर, 2024 को दोपहर 02:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('वीसी / ओएवीएम') के माध्यम से, एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 52वीं एजीएम बुलाने की सूचना ('एजीएम नोटिस') में निर्धारित व्यवसाय(व्यवसायों) को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा गया है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') / डिपॉजिटरी प्रतिभागी ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों को एजीएम नोटिस की ईमेलिंग 24 अगस्त, 2024 को पूरी हो गई है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://perfectpac.com/annualreports.aspx, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com

ईमेल पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता अधिदेश पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत हैं, वे एजीएम नोटिस में दिए गए दूरस्थ ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन कर

जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनूरोध है कि वे नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस आदि सहित सभी संचार इलेक्टॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए इसे पंजीकृत करें: -

कंपनी के भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ parveen@skylinerta.com पर निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म में विवरण पंजीकृत / अपडेट कर सकते हैं। सदस्य कंपनी की वेबसाइट https://perfectpac.com/updationofkyc.aspx से निर्धारित फॉर्म डाउनलोड

कंपनी के इक्विटी शेयर डीमैट रूप में रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 44, जैसा कि संशोधित किया गया है, एमसीए परिपत्रों के साथ पठित, सदस्यों को एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम में) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट किया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालाँकि, वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

. एजीएम नोटिस में निर्धारित व्यवसाय ई—वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के

सदस्य(ओं) के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 11 सितंबर, 2024 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को कंपनी का सदस्य है, वह एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए पात्र है।

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी द्वारा एजीएम नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 11 सितंबर, 2024 को शेयर धारण करता है, वह अपना वोट डालने के लिए अपना फोलियो नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी बताते हुए evoting@nsdl.com या admin@skylinerta.com पर ईमेल भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 15 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बर्ज (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसमें बदलाव करने

इस अवधि के दौरान, भौतिक रूप में या अमर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।

सदस्यों को एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वोट करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र

होंगे। हालांकि, वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में ई-वोटिंग की विस्तत प्रक्रिया और तरीके और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम नोटिस में दिए गए हैं और कंपनी की वेबसाइट https://perfectpac.com/annualreports.aspx और एनएसडी की

www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्य एजीएम नोटिस में उल्लिखित दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। 0.ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें या टोल फ्री नंबर: 022 - 48867000 और 022 - 24997000 पर कॉल करें या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजें, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों को

1.कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री रवि शर्मा (एफसीएस सं.4468, सी.पी. सं.: 3666), और / या सुश्री सुमन पांडे (एफसीएस सं. 7606, सी.पी. सं.रू 8404) को मेसर्स का भागीदार नियक्त किया है। मेसर्स आरएसएम एंड कंपनी, कंपनी सचिवों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग की प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया

परिणाम लागु कानुनों के तहत निर्धारित समय के भीतर घोषित किए जाएंगे और उन्हें, समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट www.perfectpac.com, एनएसडीएल की www.evoting.nsdl.com पर रखा जाएगा और बीएसई लिमिटेड को www.bseindia.com पर

परफेक्टपैक लिमिटेड के लिए

ऋण वसुली अधिकरण−॥, दिल्ली

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 मद सं. 19

टीए/1032/2022 मामले में:

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम प्रवीण कुमार उपस्थित: श्री अविनाश कश्यप, आवेदक बैंक के काउंसल


प्रतिवादी के लिये कोई नहीं यह मामला आज विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा लिया गया है

यह एक हस्तानांतरित मामला है आवेदक बैंक के विद्वान काउंसल के अनुरोध पर रजिस्ट्री को "फाइनांसियल एक्स्प्रैस"-अंग्रेजी समाचार पत्र तथा ''जनसत्ता'' - हिन्दी समाचार पत्र-दिल्ली एवं एनसीआर संस्करण जिसका अपने संबंधित क्षेत्रों में व्यापक प्रसार-प्रचार है में प्रकाशन के द्वारा सर्व कराने के लिये आदेश तिथि 12.01.2022 तथा 14.07.2022 के अनुसार प्रतिवादियों को सूचनाऐं पुनः जारी करने का निर्देश दिया

प्रतिवादियों को पोस्टिंग के सर्टिफिकेश्न के अंतर्गत प्रेषित हो तथा प्रेषण के प्रमाण के साथ साईटेशन इस मामले में निर्धारित अगली तिथि को या उससे पूर्व रजिस्ट्री में दाखिल की जाये।

साथ ही, आवेदक बैंक को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया जाता है कि साईटेशन की एक प्रति

आवेदक बैंक द्वारा प्रकाशन के प्रमाण को दाखिल करने के लिये यह मामला 3.9.2024 के लिये सचीबद्ध किया गया है।



जनसता

Sd/- (Deepak Kr. Raikwar)



बीएएमपीएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 100ए – साइकिल मार्केट, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 l फोन नं.: 9810017327

ई-मेल आईडी : bampslsecurities@yahoo.co.in www.bampslsecurities.co.in । सीआईएन नं. : L65100DL1995PLC065028

एतद्दवारा सचना दी जाती है कि कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को शाम 4.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजअल साधनों ('ओएवीएम') की सुविधा के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी ताकि एजीएम बुलाने की

29वीं एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति और रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश तथा वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 उन सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ संचार उद्देश्यों के लिए पंजीकृत हैं। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

भौतिक धारिताः कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को rta@alankit.com पर एक अनुरोध भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई कॉपी) ईमेल पता पंजीकृत करने के लिए प्रदान करें।

डीमैट धारिताः कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में यह सूचना दी जाती है कि कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा अपने पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से सभी व्यवसाय के संचालन के लिए ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश की है ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दुबारा अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सुचना के साथ भेजे गए पत्र में निहित है। ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/शिकायत श्री भीष्म कुमार गुप्ता, प्रबंध निदेशक, बीएमपीएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, ईमेलः bampslsecurities@yahoo.co.in को संबोधित की जा सकती है।

🛮 कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और संशोधित नियमों के नियम 20 के अनुसार विवरण नीचे दिए गए हैं . एजीएम की सचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम

. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान शुरू होने की तिथि और समयः 25 सितंबर, 2024 सुबह 9:00 बजे इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान समाप्त होने की तिथि और समयः 27 सितंबर, 2024 शाम 5:00 बजे

इलेक्टॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 21 सितंबर, 2024 है

ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सविधा एजीएम और सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। . जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में

कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के

रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर, 2024 को दर्ज किया गया है, वह रिमोट ई-वोटिंग की

सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Members तथा remote e-voting user manual for Members देख सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800-222-

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के उद्देश्य से 21 सितंबर, 2024 से 29 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 23 अगस्त, 2024 भीष्म कुमार गुप्ता प्रबंध निदेशक

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

🖚 🖚 😘 😘 🚾 एंजीकृत कार्यालयः राधिका, दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड: 380009 शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, खसरा नंबर 47, दशहरा मैदान के सामने, बुडेला, ऑक्स फोर्ड स्कूल के पास, विकासपुरी दिल्ली 110018

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में हस्ताक्षरित ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत जार्र नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। निम्नलिखित ऋण खातों को कंपनी के बकाया की वसली के लिए "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" बेचने

 आरिक्षत मूल्य
 संपत्ति के ई एमडी 1. उधारकर्ता/ओ गारंटर/ओ का नाम और पता 1. ई—नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 2. कुल देय+ ब्याज संपत्ति निरीक्षण की तारीख और समर वीउ मोबी कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड – ई-12/2, सेक्टर 1, प्रथम तल, नोएडा ग्रेटर नोएडा शॉपिंग प्लाजा के नाम से जानी जाने वाली 1) ई-नीलामी तिथिः 10.09.2024 – सुबह अारिक्षत मूल्य (भारतीय रुपये यावसायिक बिल्डिंग में निचले तल (बेसमेंट) पर 10.30 बजे से शाम 05.00 बजे तक 5 यहां भी – दुकान नंबर एलजी 04–जीएनएस प्लाजा प्लॉट नंबर एस७/२, साइट ४, बदुकान/कार्यालय/स्टोर नंबर एलजी–04 के सभी हिस्से, प्लॉट मिनट के असीमित विस्तार के साध 5. 17842782 / — (एक करोड़ ग्रेटर नोएडा 201301 ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री राजा पाल सिंह — फ्लैट नंबर—610 | नंबर एस—7/2, औद्योगिक क्षेत्र, सूरजपुर साइट—IV, गांव — | 2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने अद्राहत्तर लाख बयालीस हजार टेक्नोलोजी अपार्टमेंट प्लॉट नंबर—24 आई.पी. एक्सटेंशन दिल्ली दिल्ली—110092 यहां 🛮 कासना, परगना / तहसील सदर, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 🗷 की अंतिम तिथि 09.09.2024 — 🛭 शाम 5 सात सौ बयासी रुपये मात्र) भीरू निवासी 04, साया अंबेडकर नगर, यूपी 224152 यहां भी ई—12/2 सेक्टर—1 में स्थित है, जिसका कुल सुपर एरिया 467.936 वर्ग मीटर (140. बजे प्रथम तल नोएडा —201301 प्रियंका पॉल, —फ्लैट नंबर—610 टेक्नोलोजी अपार्टमेंट | 521 वर्ग मीटर कारपेट एरिया, 327.415 वर्ग मीटर कॉमन एरिया) | 3) निरीक्षण की तारीखः 05.09.2024 के ईएमडी राशि (भारतीय रुपये में): हे, जिसका शीर्षक कमोबेश ऊपर वर्णित और बंधे हुए अनुसार ही | बीच − 12:00 अपराह्न से 4:00 अपराह्न 5. 1784278/— (सत्रह लाख प्लॉट नंबर-24 आई.पी. एक्सटेंशन दिल्ली दिल्ली-110092. होगा:- उत्तरः लिफ्ट दक्षिणः बाहरी दीवार, पूर्वः दकान नंबर IST तक चौरासी हजार दो सौ अट्टाहत्तर एलजी-03, पश्चिमः बाहरी दीवार 10 मीटर सड़क 09.06.2020 तक रु.1,32,88,279.84 (रुपये एक करोड बत्तीस लाख अट्टासी हजार दो सौ उनहत्तर और चौरासी पैसे) तथा वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज, साथ में आकरिमक व्यय, लागत और शल्क आदि

इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे शाखा और नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों का दौरा करें और शुल्कों, बाधाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। क्रेता को स्वयं जांच करनी होगी और अतिरित्त

शुल्कों, बाधाओं और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाना होगा और सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करना होगा। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई

हों, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोली लगाने वालों / संभावित क्रेता द्वारा भगतान किया जाना चाहिए। बोली लगाने वालों / संभावित क्रेताओं से अनुरोध है कि वे बोली जमा करने से पहले. अपने हित में, उपरोक्त

और उपर्युक्त संपत्ति / संपत्तियों से संबंधित अन्य प्रासंगिक विवरणों के संबंध में खुद को संतुष्ट कर लें। ऑनलाइन निविदा / नीलामी के नियम एवं शर्ते (1)नीलामी बिक्री 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तारीखों पर वेबसाइट https://www.bankeauctions.com/ के माध्यम से "ऑनलाइन ई—नीलामी" बोली लगाई जाएगी। (2) इच्छुक बोलीदाता अपनी ईएमडी वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com के माध्यम से जमा करेंगे (उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com/ पर नाम पंजीकृत करके निरूशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से। ईएमडी ऊफ उल्लिखित खाते में एनईएफटी के माध्यम से देय होगी। वेब पोर्टल में बोलीदाता द्वारा पंजीकरण (एक बार) के बाद, इच्छुक बोलीदाता/खरीदार को बोली दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि और समय से पहले वेब पोर्टल में अपलोड किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना आवश्यक है। i) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान या डिमांड ड्राफ्ट की प्रतिय ii) पैन कार्ड की प्रतिय iii) पहचान का प्रमाण/पता प्रमाण (केवाईसी) अर्था मतदाता पहचान पत्र/ङ्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की स्व—सत्यापित प्रतिय जिसके बिना बोली खारिज हो जाएगी। अनुलग्नक—II और III की स्कैन की गई प्रति (वेब पोर्टल: https://www.bankeauctions.com/ डाउनलोड की जा सकती है) विधिवत भरने और हस्ताक्षर करने के बाद अपलोड करना भी आवश्यक है। इच्छक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली दस्तावेज जमा करने, ऑनलाइ इंटर—से—बोली आदि पर प्रशिक्षण/प्रदर्शन में सहायता की आवश्यकता है, वे मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर—44, गुड़गांव— 122003, हरियाणा, ई—मेल आईडीरू विनोद चौहान / delhi@clindia.com 9813887931 से संपर्क कर सकते हैं और किसी भी संपत्ति संबंधी प्रश्न के लिए अधिकृत अधिकारी: श्री विकास आनंदय मोबाइल नंबर: 9711010384, ई—मेल आईडी: vikas.anand@hdbfs.com, और श्री विशाल रितपुरकर से मोबाइल नंबर: 9833671006. ई-मेल आईडी: vishal.ritpurkar@hdbfs.com सोमवार से शनिवार तक कार्य समय के दौरान संपूर्क कर सकते हैं.। (3) इच्छक क्रेता/बोलीदाता को "एचडीबी ाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड"के पक्ष में पीएआर ⁄ नई दिल्ली पर देय किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर निकाले गए डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करर होगी।या "एचडीबीएफएस जनरल कॉलन्स" के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएसयखाता संख्या 00210310002748; आईएफएससी कोड- HDFC0000021; एमआईसीआर कोड: MICR500240002; शाखाः लकड़ीकापुल, हैदराबादय ऊपर उल्लिखित तिथि और समय पर या उससे पहले (कृपया उपरोक्त तालिका में उल्लिखित विवरण देखें) और अपना नाम https://www.bankeauctions.com/ पर पंजीकृत करें और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें और ई—नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। सेवा प्रदाता से. वेब—साइट पर अपने पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता / बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी [1 एनईएफटी/आरटीजीएस चालान/डीडी कॉपी/पे ऑर्डर की प्रतिय 2. पैन कार्ड की प्रतिलिपि और 3. पते के प्रमाण की प्रतिलिपि (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पंजीकृत अवकाश लाइसेंस अनुबंध)} वेबसाइट पर पहले या द्वारा ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में बताया गया है और उसकी हार्डकॉपी भी ऊपर उल्लिखित शाखा में जमा करनी होगी। (4) बोली के साथ ईएमडी (आरक्षित मुल्य के 10% के बराबर) के साथ डिमांड डाफ्टपे ऑर्डर के माध्यम से "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में सममुल्य / जयपुर पर देय या "एचडीबीएफएस जनरल कॉलन्स" खाता संख्या 00210310002748: आईएफएससी कोड– HDFC0000021: एमआईसीआर कोड MICR500240002: शाखाः लकडीकापुल, हैदराबाद ऊपर उल्लिखिततिथि और समय पर या उससे पहले के साथ संलग्न होना चाहिए। (5) जो बोलियां भरी नहीं जाएंगी या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियां अमान्य बोली मानी जाएंगी और सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएंगा। एक बार बोलीदाता द्वारा बोली जमा करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना किसी अतिरिक्त उपाय के जल्त कर ली जाएगी। हालाँकि, असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। (६)प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य वृद्धि मूल्य के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर होगी तथा 10,000 / — (केवल दस हजार रुपये) और बोली लगाने वाले को रुपये के गुणक में अपनी पेशकश में और सुधार करना होगा। 10,000 / – (रुपए दस हजार मात्र)। संपत्ति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। (7) सफल बोली लगाने वाले को बिक्री मुल्य का 25% (ईएमडी सहित) तुरंत लेकिन अगले कार्य दिवस से पहले "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में पीएआर / जयपुर या एनईएफटी / आरटीजीएस पर देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा । एचडीबीएफएस जनरल कॉलन्स के खाता संख्या 00210310002748; आईएफएससी कोड- HDFC0000021; एमआईसीआर कोड: MICR500240002; शाखाः लकड़ीकापुल, हैदराबाद और बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा कंपनी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई ईएमडी और बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या कोई डिफॉल्ट करता है. तो ईएमडी की जमा राशि या बिक्री मल्य का 10%, जो भी मामला हो, कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। (8) बिक्री की शर्तों के अनुपालन पर, प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में "बिक्री प्रमाणपत्र" जारी करेगा। स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, परिवहन, टीडीएस आदि से संबंधित सभी खर्च क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। (७) कंपनी प्रस्तावित संपत्ति या किसी अन्य बकाया यानी बकाया पानी/बिजली बकाया, संपत्ति कर या अन्य शुल्क, यदि कोई हो, के संबंध में किसी भी प्राधिकारी से या लागू किसी अन्य कानून के तहत अनुमति/एनओसी प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। (10) सफल बोलीदाता को नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकरण / एजेंसी को किसी भी विकास प्राधिकरण के लंबित बकाया, यदि कोई हो, कर / उपयोगिता बिल आदि और पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क / पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देय शुल्क सहित सभी खर्च वहन करना होगा। विक्रय प्रमाणपत्र के पंजीकरण के लिए। (11) प्राधिकृत अधिकारी किसी भी या सभी प्रस्तावों / बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए बिक्री को स्थगित ⁄ रद्द करने या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवेक सुरक्षित रखता है। अचल संपत्ति सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेची जाएगी। हालाँकि, यदि आवश्यक समझा जाए तो प्राधिकृत अधिकारी के पास परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेक सुरक्षित है। (12) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, कंपनी को कंपनी के अलावा बेची जाने वाली संपत्ति पर किसी भी तरह की देनदारी के बारे में जानकारी नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी संतुष्टि के अनुसार संपत्ति का अपना मूल्यांकन करना चाहिए। कंपनी किसी भी तरह से उपरोक्त संपत्ति की फिटनेस ⁄ शीर्षक के संबंध में कोई गारंटी नहीं देती है या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती है। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी को भी किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, ऋणभार, संपत्ति कर या किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। (13) नोटिस में बकाया राशि और आकरिमक खर्चों, लागतों आदि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार लाग् होने पर आगे ब्याज लिया जाएगा और इसकी वास्तविक वसूली तक देय होगा। (14) इसके द्वारा ऋणी / बंधककर्ता को बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए नोटिस दिया जाता है और वे ऊपर वर्णित अनुसार अचल संपत्ति खरीदने के लिए इच्छुक क्रेता /क्रेता को बिक्री के नियमों और शर्तों के विवरण के अनुसार ला सकते हैं। (15) वेबसाइट पर प्रस्ताव / निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके नीलामी प्रक्रिया में ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेना अनिवार्य है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां जमा करने और ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए वेबसाइट https://www.bankeauctions.com/ जाएं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऑनलाइन बोली संगठन की वेबसाइट पर होगी, और निविदा दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों के अधीन होगी।नीलामी के लिए निविदा दस्तावेज और विस्तृत नियम और शर्ते वेबसाइट https://www.bankeauctions.com/ से डाउनलोड की जा सकती हैं या इसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन जमा किए गए संलग्नक के साथ बोली फॉर्म की एक प्रति (युटीआर नंबर का भी उल्लेख करते हुए) श्री विकास आनंद मो.9711010384 एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में, पता—, खसरा नं. 47, दूसरी मंजिल, दशहरा मैदान के सामने, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018 ऊपर उल्लिखित तिथि और समय पर या उससे पहले। (कृपया उपरोक्त तालिका में उल्लिखित विवरण देखें)को सौंपी जाएगी। (16) संपत्ति "जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" के आधार पर बेची जाएगी और इच्छ्क बोली लगाने वाले को कंपनी के अलावा किसी भी प्राधिकरण की संपत्ति पर भार, शुल्क और वैधानिक बकाया के संबंध में विवेकपूर्ण पूछताछ करनी चाहिए। शुल्क और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के शीर्षक, सीमा, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में खुद को संतुष्ट कर लेना होगा। बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति, संपत्ति पर शुल्क और भार या किसी अन्य मामले आदि के संबंध में किसी भी प्रकृति का कोई भी दावा ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद और उसके बाद किसी भी चरण में विचार नहीं किया जाएगा।कंपनी क्षति या बेदखली की कार्यवाही आदि सहित किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। इच्छुक बोली लगाने वाले को इस संबंध में किरायेदारों के साथ—साथ कंपनी को भी क्षतिपूर्ति करनी होगी। क्रेता किरायेदार को बेदखल करने / किरायेदार के निपटान के लिए केवल कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। कंपनी कैविएट एस्टर के सिद्धांत को सेवा में लाती है। (17) यह प्रकाशन सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2), 8(6) और नियम 9 के अनुसार उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को '15' (पंद्रह) दिन का नोटिस भी है, ताकि वे देयता का पूर्ण रूप से निर्वहन कर सकें और ऊपर बताए गए बकाए के साथ–साथ अद्यतन ब्याज और खर्चों का इस नोटिस की तारीख से '15' (पंद्रह) दिन के भीतर भुगतान कर सकें, अन्यथा सुरक्षित संपत्ति को ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेच दिया जाएगा। यदि अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशनों में कोई विसंगति है, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान ले लेगा और इसे अंतिम प्रति माना जाएगा, जिससे अस्पष्टता दूर हो जाएगी। यदि उधारकर्ता/बंधककर्ता बिक्री की तारीख से पहले कंपनी को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है। अधिक जानकारी और प्रश्नों के लिए, **प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड श्री विकास आनंदः 09711010384** स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

जाता है तथा बैंक उसे ई-मेल/भौतिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक बैंक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तिथि से कम से कम एक माह पूर्व

AR / Registrar I/C, DRT-II, Delhi

सुचना

सूचना में निर्धारित ऐसे साधारण और विशेष व्यवसाय को अंजाम दिया जा सके।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान 27 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा

कोई भी व्यक्ति. जो नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर, 2024 तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजुदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दुबारा अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

0. वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.bampslsecurities.co.in और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की गई है। . किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में

बोर्ड के आदेशानुसार मेसर्स बीएएमपीएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड

सरफेसी अधिनियम, 2002 के

अंतर्गत ई-नीलामी बिक्री

सुचना

कंपनी सचिव

दिनांक: 25.08.2024

www.readwhere.com

दिनांकः 24.08.2024

स्थानः नई दिल्ली